



21 अगस्त 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा तेल सीजन के पहले नौ महीनों से अक्टूबर तक भारत का खाद्य तेल आयात 25.04 प्रतिशत बढ़ गया। मौजूदा सीजन की नवंबर-जुलाई अवधि में 121.22 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 96.95 लाख टन का आयात हुआ था।
- भारत अगले साल राज्य और राष्ट्रीय चुनावों से पहले आपूर्ति बढ़ाने और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए एक दुर्लभ कदम के रूप में बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद रियायती दर पर गेहूं आयात करने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है।
- कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार खुले बाजार में 1 मिलियन टन चना बेचेगी।
- 2023-24 में वैश्विक स्तर पर कपास उत्पादन घटकर 116.84 मिलियन गांठ रह सकता है: यूएसडीए।
- इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में 2023 की पहली छमाही में साल दर साल 1.8% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य

कारण चीन में उच्च उत्पादन था।

- चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से तीन महीने में दूसरी बार प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की, जो यह संकेत है कि अधिकारी तेजी से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक सहजता के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं।
- दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक ने पिछले महीने 90.8 मिलियन मीट्रिक टन लौह धातु का उत्पादन किया, जो जून में 91.11 मिलियन टन से कम है, लेकिन 2022 में समान महीने से 11.5% अधिक है, जब संपत्ति क्षेत्र के संकट के कारण मांग कम होने के कारण स्टील मिलों ने घटते मार्जिन के बीच उत्पादन में कटौती की थी।
- भारत का माल निर्यात लगातार छठे महीने जुलाई में 16% घटकर 32.25 अरब डॉलर रह गया।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 1-14 अगस्त के दौरान सामान्य से 36% कम बारिश हुई है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.08.23	17.08.23	बदलाव (%)
स्वीट	43060.00	46210.00	7.32%
कॉटनऑयलसीडकेक	2628.00	2720.00	3.50%
कपास	1570.50	1580.50	0.64%
जौ	1868.50	1877.00	0.45%
कैस्टर सीड	6148.00	6175.00	0.44%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.08.23	17.08.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	13135.00	12491.00	-4.90%
जीरा	60635.00	58125.00	-4.14%
धनिया	7364.00	7166.00	-2.69%
ग्वारसीड	6296.00	6205.00	-1.45%
धान	4206.00	4151.00	-1.31%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.08.23	17.08.23	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	892.60	933.20	4.55%
लेड	184.60	185.45	0.46%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.08.23	17.08.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	240.50	230.30	-4.24%
कच्चा तेल	6891.00	6654.00	-3.44%
निकल	1754.50	1699.00	-3.16%
सोना एम	58933.00	58354.00	-0.98%
सोना	59259.00	58704.00	-0.94%

साप्ताहिक समीक्षा

पिछले सप्ताह में, सीआरबी इंडेक्स 315 के रेजिस्टेंस स्तर से नीचे आ गया। बुलियन, जिसमें सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं, में लगातार तीसरे सप्ताह महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। इससे इन कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार कमी का संकेत मिलता है। गुरुवार को सोने की कीमतें पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि हाल के सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी की यील्ड में तेजी आई, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीति को सख्त करने की उम्मीदों को बल मिला। फेड की जुलाई बैठक के मिनट से पता चला कि अधिकांश नीति निर्माताओं ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देना जारी रखा है जबकि कुछ नीति निर्माताओं ने दरों को बहुत आगे बढ़ाने से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का हवाला दिया। बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे जून के मध्य के बाद से डॉलर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और निवेशकों को गैर-ब्याज वाले सोने से दूर कर दिया। सात सप्ताह की तेजी के बाद कच्चे तेल की कीमतें रुक गई, जिससे तेल की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी का संकेत मिला। चीन में विकास दर धीमी होने की आशंका और अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की मांग कमजोर होने की आशंकाओं के कारण कीमतों में गिरावट हुई। चीन के केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह तीन महीने में दूसरी बार प्रमुख नीतिगत दरों में अप्रत्याशित रूप से कटौती की, लेकिन विश्लेषकों को चिंता है कि यह अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। नेचुरल गैस की कीमतें बढ़त बरकरार नहीं रख सकीं। बेस मेटल में, तांबे की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह फिसलकर 766 से घटकर 720 पर आ गई। लेड और एल्युमीनियम की कीमतें मामूली बढ़त के साथ एक निश्चित सीमा के भीतर सप्ताह के अंत में बंद होने में कामयाब रही। जिक की कीमतों में गिरावट हुई क्योंकि एलएमई-पंजीकृत गोदामों में जिक का भंडार दो दिनों में 54% बढ़कर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कमजोर मांग के बीच बाजार अधिशेष को उजागर करता है।

कृषि में, गुजरात में अरंडी के रकबे में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतें साप्ताहिक बढ़त गवां दिया। अरंडी की बुआई गतिविधियाँ सकारात्मक रूप से चल रही हैं क्योंकि 11 अगस्त तक पूरे भारत में लगभग 5.34 लाख हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हुई थी, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 4.71 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। कॉटनऑयलसीडकेक वायदा में लगातार तीसरे सप्ताह जबरदस्त तेजी रही। वर्ष 2023 में 11 अगस्त तक पूरे भारत में कपास का क्षेत्रफल 121.28 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले वर्ष यह 122.53 लाख हेक्टेयर था। कॉटन कैंडी की कीमतें एक दायरे में रही। जबकि कपास की कीमतों में थोड़ी गिरावट हुई। ऊपरी स्तर से मुनाफावसूली के कारण इस सप्ताह ग्वार का भाव गिरावट के साथ बंद हुआ। मसाला बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया, जो मांग में कमी या मसालों की कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का संकेत देता है। बाजार में मांग कम होने के कारण मुनाफावसूली के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट हुई। बाजार में बिकवाली के बढ़ते दबाव के कारण निजामाबाद में हाजिर कीमतें भी तेजी से गिरीं और 13400 रु/क्विं. पर आ गईं। कमजोर मांग और कमजोर निर्यात पूछताछ के कारण जीरा की कीमतें 60000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे टूट गई, जिससे बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ। मिल मालिकों के पास पर्याप्त स्टॉक होने से धनिया की कीमतों पर दबाव रहा।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	11.08.2023	17.08.2023	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	1,865.55	1,876.20	0.57%
चना	दिल्ली	5,812.30	6,075.00	4.52%
धनिया	कोटा	7,612.30	7,530.55	-1.07%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	797.00	816.00	2.38%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,436.35	1,440.20	0.27%
ग्वारसीड	जोधपुर	6,263.70	6,174.25	-1.43%
ग्वारगम	जोधपुर	13,306.70	12,816.95	-3.68%
जीरा	ऊझा	61,633.30	60,409.00	-1.99%
सरसों	जयपुर	5,908.75	5,969.30	1.02%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	945.00	957.50	1.32%
सोयाबीन	इंदौर	5,137.00	5,152.05	0.29%
हल्दी	निजामाबाद	14,555.25	14,146.85	-2.81%
गेहूं	दिल्ली	2,507.30	2,488.75	-0.74%
कॉटन	कड़ी	28,816.80	29,281.50	1.61%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,638.80	2,742.50	3.93%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.08.2023	17.08.2023	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2175.50	2145.50	-1.38%
तांबा	LME	नकद	8294.50	8235.50	-0.71%
लेड	LME	नकद	2109.00	2141.50	1.54%
निकल	LME	नकद	20241.00	20277.00	0.18%
जिंक	LME	नकद	2397.50	2298.00	-4.15%
सोना	COMEX	अक्टूबर	1927.70	1896.70	-1.61%
चांदी	COMEX	सितम्बर	22.74	22.72	-0.12%
लाइट क्रूड	NYMEX	सितम्बर	83.19	80.39	-3.37%
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	2.77	2.62	-5.38%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.08.2023	17.08.2023	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.37	13.30	-0.52%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	61.59	63.78	3.56%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	87.89	83.61	-4.87%
सीपीओ	BMD	अक्टूबर	3,717.00	3,923.00	5.54%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	10.08.2023 क्वांटिटी	17.08.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	11442	12205	763
चना	मी.टन	12678	12956	278
धनिया	मी.टन	20746	25093	4347
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	16949	17255	306
ग्वारगम	मी.टन	22260	23075	815
ग्वारसीड	मी.टन	96	96	0
जीरा	मी.टन	5682	5938	256
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	622	622	0
हल्दी	मी.टन	1899	2207	308

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	11.08.2023 क्वांटिटी	17.08.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	582	244	-337
तांबा	मी.टन	385338	293633	-91705
सोना	किग्रा	606	596	-10
सोना मिनी	किग्रा	2824	2672	-152
सोना गिनी	किग्रा	188200	174300	-13900
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	77976	72914	-5062
चांदी एम	किग्रा	40387	40385	-2
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 11.08.2023	स्टॉक की स्थिति 17.08.2023	अंतर
एल्युमीनियम	491750	487100	-4650.00
तांबा	85375	91400	6025.00
निकल	37014	37110	96.00
लेड	56125	56425	300.00
जिंक	92175	142775	50600.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	सितम्बर	59055.00	14.03.23	तेजी	32000.00	57300.00	-	57000.00
NCDEX	हल्दी	अक्टूबर	15664.00	06.04.23	तेजी	7035.00	14500.00	-	14300.00
NCDEX	ग्वारसीड	सितम्बर	6134.00	28.06.23	तेजी	5350.00	5850.00	-	5800.00
NCDEX	कैस्टरसीड	सितम्बर	6263.00	15.06.23	तेजी	5750.00	6150.00	-	6100.00
NCDEX	स्टील लांग	सितम्बर	45640.00	16.08.23	तेजी	45200.00	44200.00	-	44000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	सितम्बर	2750.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2520.00	-	2500.00
MCX	मेंथा ऑयल	अगस्त	915.90	17.08.23	तेजी	910.00	895.00	-	890.00
MCX	बुलडेक्स	अगस्त	15572.00	18.08.23	तेजी	15600.00	15730.00	-	15700.00
MCX	चांदी	सितम्बर	70018.00	18.08.23	तेजी	70200.00	68300.00	-	68000.00
MCX	सोना	अक्टूबर	58290.00	07.08.23	साइडवेज	58200.00	57700.00	59200.00	-
MCX	तांबा	अगस्त	723.60	07.08.23	मंदी	740.00	-	745.00	748.00
MCX	लेड	अगस्त	183.95	13.07.23	साइडवेज	182.00	178.00	187.00	-
MCX	जिंक	अगस्त	210.15	08.08.23	मंदी	222.00	-	228.50	230.00
MCX	एल्युमिनियम	अगस्त	196.90	08.08.23	मंदी	201.00	-	209.00	210.00
MCX	कच्चा तेल	अगस्त	6685.00	12.07.23	तेजी	6050.00	6330.00	-	6300.00
MCX	नेचुरल गैस	अगस्त	218.90	07.08.23	तेजी	220.00	200.00	235.00	-

*17/08/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पंजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक को रूझनों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

चांदी मिनी (अगस्त) एमसीएक्स



चांदी मिनी (अगस्त) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 79618.00

निचला स्तर: 63800.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 17 अगस्त 2023 को 70182.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 71400.00 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 35.631 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

68600.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 73000.00 रु के टारगेट के लिए 69600.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

स्टील लांग (सितम्बर) एनसीडीईएक्स



स्टील लांग (सितम्बर) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 46420.00

निचला स्तर: 43900.00

एनसीडीईएक्स में कॉटनऑयलसीडकेक (सितम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 17 अगस्त 2023 को 45640.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 45361.46 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 64.376 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

44650.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 47200.00 रु के टारगेट के लिए 45500.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

तांबा (अगस्त) एमसीएक्स



तांबा (अगस्त) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 757.75

निचला स्तर: 705.25

एमसीएक्स में तांबा (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 17 अगस्त 2023 को 723.60 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 722.55 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 37.948 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

738.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 712.00 रु के टारगेट के लिए 729.00 रु के नीचे बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

भौतिक बाजार में मांग कम होने से पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में मुनाफावसूली देखी गई। स्टॉकिस्टों और किसानों ने कीमतों में अधिक गिरावट की डर से अपने स्टॉक को बेच दिया क्योंकि एनसीडीईएक्स पर 18000 अंक को छूने के बाद कीमतें लगातार दूसरे सप्ताह गिर गईं। अप्रैल-23 के बाद से अब तक हल्दी की कुल आवक वार्षिक आधार पर अधिक रही है, क्योंकि पिछले वर्ष के 189 हजार टन के मुकाबले वर्ष 2023 में समान अवधि के दौरान लगभग 217 हजार टन हल्दी की आवक हुई। मांग कम हुई है क्योंकि आने वाली अधिकांश आवक घटिया गुणवत्ता की है। बाजार में गुणवत्तापूर्ण उपज की सीमित उपलब्धता से हल्दी की कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लग सकती है। आने वाले दिनों में हल्दी के लिए चल रही बुआई और फसल की प्रगति कीमतों के प्रमुख निर्धारक हो सकते हैं। दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में शुष्क मौसम के पूर्वानुमान के कारण हल्दी की फसलों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। बुआई के समय मानसून की चिंताओं के कारण वर्ष 2023 में हल्दी का उत्पादन क्षेत्र 15-20% कम होने का अनुमान है। हल्दी (अक्टूबर) वायदा में मुनाफावसूली जारी रहने की संभावना है और कीमतें 14500 के सपोर्ट तक फिसलने की संभावना है जबकि 18000 निकट अवधि में रोजिस्टेंस के रूप में काम करेगी।

वैश्विक आपूर्ति स्थिति में सुधार के बाद जीरा वायदा की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट हुई। निर्यात मांग कमजोर होने से बाजार में मुनाफावसूली शुरू हो गई। निर्यात में गिरावट की खबरों से जीरा में मुनाफावसूली जारी रहने की उम्मीद है। चीन द्वारा कम खरीदारी के कारण जून-23 में जीरा का निर्यात कम हो गया क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष के 20.4 हजार टन की तुलना में केवल 9.2 हजार टन जीरा निर्यात किया। पाइप लाइन समाप्त होने के कारण जीरा की कीमतों में अभी भी तेजी का रुझान बना हुआ है। घरेलू बाजार में आपूर्ति की कमी को लेकर मौजूदा चिंता से गिरावट पर लगाम लगाने की संभावना है। कीमतों में फिर से तेजी की उम्मीद में किसान और स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक जारी करने से हिचक रहे हैं। त्योहारी सीजन में जीरा की मांग में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे मिलें हर गिरावट पर खरीदारी कर सकती है। जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती, स्टॉक कम रहने की संभावना है। जीरा की कीमतों के 62000-55000 के दायरे में रहने की संभावना है।

घरेलू मांग में कमी के कारण धनिया वायदा (सितंबर) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका से स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक निकाल रहे हैं। पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के कारण धनिया में कमजोरी बनी रहेगी। लेकिन निर्यात मांग बढ़ने से गिरावट सीमित होने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच अनाज सौदे में व्यवधान के कारण लगातार तीसरे महीने वार्षिक आधार पर निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे धनिया की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में लगभग 11.3 हजार टन धनिया का निर्यात किया। भारत ने अप्रैल-जून-23 की समयवधि के दौरान पिछले वर्ष के 8.7 हजार टन के मुकाबले लगभग 46.7 हजार टन का निर्यात किया। चीन, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में भारतीय धनिये के प्रमुख खरीदार रहे हैं। फसल के बड़े आकार के कारण अप्रैल-23 से अब तक धनिया की कुल आवक अधिक रही है, लेकिन अधिक निर्यात से नुकसान सीमित होने की संभावना है। धनिया की कीमतें 6900-7500 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

मध्य क्षेत्र में फसल की प्रगति को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम की स्थिति शुष्क रही है और अगस्त-23 में फसल के लिए प्रतिकूल रहने की संभावना है, जिससे बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन मिलेगा। वर्ष 2023 में 11 अगस्त तक पूरे भारत में कपास का क्षेत्रफल 121.28 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले वर्ष यह 122.53 लाख हेक्टेयर था। लेकिन, सूती धागे की बेहतर मांग और कपास स्टॉक की सीमित उपलब्धता से नुकसान पर लगाम लगाने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन (अगस्त) की कीमतों के 56500-61500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1520-1600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कॉटनसीडऑयलक्रेक (सितंबर) वायदा की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने की संभावना है। भारत के मध्य और उत्तरी भाग में शुष्क मौसम को लेकर बढ़ती चिंताओं के परिणामस्वरूप कॉटनसीडऑयलक्रेक की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कपास के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट से भी कॉटनसीडऑयलक्रेक में तेजी को समर्थन मिला। कीमतों को 2800 के करीब रोजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और इस स्तर को पार करने पर 2950 तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन, निकट अवधि में 2600 के समर्थन स्तर तक कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है।

राजस्थान में कम उत्पादन को लेकर मौजूदा चिंताओं के कारण ग्वारसीड (सितंबर) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। राजस्थान में बुआई क्षेत्र में गिरावट हुई है क्योंकि 11 अगस्त तक ग्वार के तहत 27.34 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 30.08 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। राजस्थान में शुष्क मौसम ने उपज में कमी की चिंता बढ़ा दी है जिससे कीमतों में मजबूती आएगी। ग्वारगम के सुस्त निर्यात से बहुत सीमित हो सकती है। पिछले वर्ष के 66 हजार टन की तुलना में अप्रैल-जून-23 की समय अवधि के दौरान लगभग 37 हजार टन ग्वारगम का निर्यात किया गया था। निकट भविष्य में ग्वारसीड की कीमतें 5850-6350 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं जबकि ग्वारगम की कीमतों के 11400-13800 के दायरे में रहने की संभावना है।

बाजार में शॉर्ट कवरींग के कारण मेंथा ऑयल (अगस्त) वायदा की कीमतों में तेज रिकवरी देखी गई। मेंथॉल के लिए उभरती नयी निर्यात पूछताछ के कारण स्टॉकिस्ट खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। कम रकबा के कारण वार्षिक आधार पर मेंथा ऑयल का कुल उत्पादन कम होने की संभावना है, जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। मेंथा ऑयल की कीमतों के 880-960 के दायरे में रहने की संभावना है।

गुजरात में अरंडी के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। बुआई गतिविधियां बेहतर गति से चल रही हैं क्योंकि 11 अगस्त तक पूरे भारत में लगभग 5.34 लाख हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष 4.71 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इसके अलावा, अरंडी तेल की कमजोर मांग से भी निकट अवधि में कीमतों पर दबाव रह सकता है। अरंडी (सितंबर) वायदा की कीमतों के 5900-6500 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पफा

सोने की कीमतें पांच महीने में सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं क्योंकि हाल ही में जारी आंकड़ों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लचीलेपन का संकेत दिया, जिससे इस साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई। फंड की जुलाई की बैठक के मिनट में आर्थिक जोखिमों से अधिक मुद्रास्फीति से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की दर वृद्धि के संबंध में नीति निर्माताओं के बीच एक मतभेद का खुलासा किया गया। अमेरिकी डॉलर दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, साथ ही 10 साल के ट्रेजरी यील्ड अक्टूबर के बाद से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। अमेरिकी खुदरा बिक्री और आयात आंकड़ों ने मंदी की चिंताओं को कम कर दिया। अमेरिका में 30-वर्षीय यील्ड भी 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो मजबूत आर्थिक संकेतकों के कारण हुई है, जिससे फंड द्वारा लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावों में गिरावट और रोजगार में धीमी बढ़ोतरी के बीच श्रम बाजार की कमजोरी को देखते हुए, 25 अगस्त को वार्षिक जैक्सन होल केंद्रीय बैंकर्स संगोष्ठी में फंड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के आगामी आर्थिक दृष्टिकोण भाषण की उम्मीद बढ़ गई है। जापान की आवश्यक उपभोक्ता मुद्रास्फीति जुलाई में कम हुई, फिर भी लगातार 16वें महीने बैंक ऑफ जापान के मूल्य लक्ष्य से अधिक स्तर पर बनी रही। इस बीच, दुनिया के सबसे ऋणग्रस्त संपत्ति डेवलपर और चीन की संपत्ति दुर्दशा के प्रतीक चीन एवरग्रांड ने अमेरिकी दिवालियापन अदालत के माध्यम से लेनदारों से सुरक्षा की मांग की। दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग्स गिरावट के साथ 887.50 टन रह गई है, जो जनवरी 2020 के बाद से सबसे कम है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1890 डॉलर के करीब कारोबार कर रही हैं, और 1890 डॉलर के स्तर के सपोर्ट स्तर से नीचे टूटने पर कीमतें 1840 डॉलर तक पहुंच जाएंगी कीमतें बढ़ेंगी, जबकि छोटी अवधि में रोजिस्टेंस 1950 डॉलर के पास देखा जा रहा है। चांदी मंदी के रुझान के साथ व्यापार करना जारी रख सकती है और और 20.90-23.80 डॉलर के बीच कारोबार कर सकती है। सोने की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है और कीमतें 57000-59000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 69900-73000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल ने लगातार सातवें सप्ताह में प्रभावशाली बढ़त हासिल की क्योंकि चीन की आर्थिक मंदी और संभावित अमेरिकी ब्याज दर में बढ़ोतरी के बारे में चिंताएं आपूर्ति बाधाओं के संकेतों की तुलना में कम प्रभावी रही। यह इस वर्ष दोनों बेंचमार्क के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले सात हफ्तों में, ब्रेंट वायदा में लगभग 18% की वृद्धि हुई, और डब्ल्यूटीआई में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे वे 11 अगस्त तक एक महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। लेकिन, इस सप्ताह उनकी गति कुछ हद तक कम हो गई, क्योंकि दोनों में 3% से अधिक की गिरावट देखी गई। खुदरा बिक्री आंकड़ों जैसे मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बावजूद, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने पर फेडरल रिजर्व के प्रयास ने तेल की कीमत में वृद्धि को कम कर दिया है। आपूर्ति संबंधी आशंकाओं के कारण हाल ही में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन की आर्थिक उथल-पुथल, विशेष रूप से इसके संपत्ति संकट ने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है, ओपेक+ द्वारा उत्पादन में कटौती के कारण तेल की आपूर्ति में कमी आई है और अमेरिका में बढ़ती यात्रा और बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधि के कारण बढ़ती मांग ने कीमतों को बढ़ावा दिया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे जल्द ही इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन, एएनजेड रिस्क के अनुसार, अमेरिकी तेल उत्पादन ओपेक+ की कटौती से कुछ नुकसान की भरपाई कर रहा है, लेकिन अमेरिकी रिग संख्या में कमी से पता चलता है कि यह समर्थन अल्पकालिक हो सकता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में लगभग 6 मिलियन बैरल की गिरावट हुई है, जो मजबूत निर्यात और रिफाइनिंग दरों से प्रेरित है। आने वाले सप्ताह में कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है और कीमतें 6480-7050 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अगले सप्ताह अनुमानित मांग में कमी और गर्म मौसम के अनुमानों को धाता बताते हुए प्रचुर मात्रा में उत्पादन के कारण नेचुरल गैस की कीमतें 6.47% गिरकर 216.8 पर आ गईं। इस सप्ताह में कीमतें 200-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल


चीन के निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों की चिंता और अमेरिकी दरों में आगे बढ़ती की आशंकाओं के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि चीन के औद्योगिक उत्पादन, निवेश और खुदरा बिक्री में पिछले महीने उम्मीद से कम वृद्धि हुई है, जो महामारी के बाद आर्थिक सुधार के संघर्ष को उजागर करती है, जबकि संपत्ति निवेश में लगातार गिरावट ने औद्योगिक धातुओं के लिए मांग के दृष्टिकोण को अधिक खराब कर दिया है। चीन में रियल एस्टेट संकट गहराने के बीच संपत्ति की दिग्गज कंपनी एवरग्रांडे ने अमेरिका में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। चीन के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने भी दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध फिर से बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया है। सकारात्मक खबर में, चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से तीन महीने में दूसरी बार प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की, जिससे यह संकेत मिलता है कि अधिकारी तेजी से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक सहजता के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं। तांबे की कीमतें 715-735 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। जिंक की कीमतें 200-220 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई-पंजीकृत गोदामों में जिंक का भंडार दो दिनों में 54% बढ़कर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कमजोर मांग के बीच बाजार अधिशेष को उजागर करता है। लेड की कीमतें 178-187 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 190-202 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में निकट अवधि की डिलीवरी के लिए एल्युमीनियम पर छूट 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कमजोर मांग और बढ़ती आपूर्ति का संकेत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के शीर्ष एल्युमीनियम उत्पादक ने पिछले महीने 3.48 मिलियन मीट्रिक टन प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की अवधि से 1.5% अधिक है। स्टील लॉन्ग वायदा (सितंबर) की कीमतों के 44800-47000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

चांदी... 'नए युग की मांग के बीच अपर्याप्त आपूर्ति

चांदी की कीमती धातुओं के साथ-साथ एक औद्योगिक वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। औद्योगिक उपयोग से लेकर सजावट, प्रौद्योगिकी, फोटोग्राफी और चिकित्सा तक में औद्योगिक उपयोग के कारण यह सबसे बहुमुखी धातु है। चांदी के उपयोग में वृद्धि कोविड-19 महामारी की शुरुआती अवधि के दौरान भारी गिरावट के बाद से रिकवरी के कारण भी हुई है। घरेलू कामकाजी अर्थव्यवस्था की मांग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी, 5जी बुनियादी ढांचे में निवेश, आपूर्ति पाइपलाइन के साथ भंडार जमा करने और हरित अर्थव्यवस्था में बढ़ते अंतिम उपयोग के कारण कुल मिलाकर मांग में बढ़ती को मदद मिली है। चांदी की वैश्विक खपत का लगभग 60 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए होता है और शेष निवेश उद्देश्यों के लिए होता है।

चांदी की मांग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- सिल्वर इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2023 के अनुसार, चांदी बाजार पिछले दो वर्षों से घाटे में है। 2022 में घाटा 237.7 मिलियन औंस का था, और 2023 में यह घाटा 142.1 मिलियन औंस होने का अनुमान है।
- सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि इस वर्ष 1.17 अरब औंस की मांग होगी, जबकि अनुमानित आपूर्ति 1.02 अरब औंस है।
- चांदी की यह कमी विभिन्न कारणों के कारण है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा उद्योगों की वृद्धि भी शामिल है, जिसमें चांदी का उपयोग होता है।
- चांदी की खपत बढ़ने की उम्मीद है, और इस साल कुल मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 14% है, जबकि 2014 में यह सिर्फ 5% थी। इस वृद्धि में चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जहां 2023 में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक पैलन स्थापित करने का अनुमान है।
- सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि चांदी की औद्योगिक मांग इस साल 576.4 मिलियन औंस के अब तक के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है, जो 2022 की तुलना में 4% अधिक है।
- सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में, फोटोवोल्टिक की मांग पिछले साल 15% बढ़कर 140.3 मिलियन औंस हो गई, और 2023 में 28% बढ़कर 161.1 मिलियन औंस होने की उम्मीद है, जिससे कुल मांग 2015 की तुलना में लगभग तीन गुना हो जाएगा।
- मौद्रिक पक्ष में, प्रणालीगत जोखिम, मुद्रास्फीति और अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य के मुकाबले अन्य देशों के बीच डी-डॉलरीकरण के खिलाफ बचाव के रूप में चांदी की लोकप्रियता बढ़ रही है।
- टारपीडो, मिसाइल, एयरोस्पेस और विमान अनुप्रयोगों के लिए सिल्वर-जिंक बैटरियों में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है क्योंकि सिल्वर-जिंक बैटरियों में उच्च ऊर्जा क्षमता होती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर वैश्विक बदलाव चांदी की खपत का एक और महत्वपूर्ण कारक है। इस वस्तु का उपयोग ईवी बैटरियों के उत्पादन और विद्युत संपर्कों और स्विचों के उत्पादन में किया जाता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के आवश्यक घटक हैं।



स्रोत: सिल्वर इंस्टीट्यूट

खदानों से अपर्याप्त उत्पादन

2023 में खदानों से चांदी के उत्पादन में 2% की मामूली वृद्धि की उम्मीद है। चांदी के खनन में बढ़ती ऊर्जा और श्रम लागत और खनन पर बढ़ते पर्यावरणीय नियमों के कारण हाल के वर्षों में चांदी की मांग की तुलना में खदानों से उत्पादन कम रहा है। दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश मेक्सिको ने खुले खदानों में चांदी के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आउटलुक

आगे देखते हुए, ठोस औद्योगिक मांग के पूर्वानुमान, आपूर्ति संबंधी चिंताएं और केंद्रीय बैंकों के समायोजनकारी नीतिगत उपायों की संभावनाएं कमोडिटी को समर्थन प्रदान करती रहेंगी। सौर पैनेलों के बढ़ते उपयोग के कारण इस वर्ष चांदी की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी क्योंकि सरकारें जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं। भारतीय निवेश में और सुधार होने की उम्मीद है। फिर भी यह 2019 के स्तर से कम ही रहेगा। लेकिन मंदी की आशंका और मध्यम निवेश मांग के कारण चांदी की कीमतों में तेजी पर रोक लगने की संभावना है। इसके अलावा, यदि फेड सख्ती जारी रखता है, और यदि मुद्रास्फीति बाजार की अपेक्षा से अधिक तेजी से कम हो जाती है, तो यह चांदी के लिए प्रतिकूल स्थिति होगी।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटि द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।